

पाठ – 7 (डाकिये की कहानी , कुवरसिंह की जुबानी)

कठिन शब्द

1. ऑफिस
2. ग्रामीण
3. रजिस्ट्री
4. पोस्टकार्ड
5. पेंशन
6. नियुक्ति
7. मुख्यालया
8. स्पीति
9. इम्तिहान

शब्द – अर्थ

1. छाँटने – अलग करने
2. पुरस्कार – इनाम
3. मौत – मृत्यु
4. जरिया – तरीका
5. सम्मान – इज्जत
6. इम्तिहान – परीक्षा
7. तबादला – बदली
8. वेतन – तनख्वाह
9. वजह – कारण
10. प्रतिदिन – रोजाना

विलोम शब्द

1. सुबह x शाम
2. धूप x छाव
3. साधारण x असाधारण
4. दूर x नजदीक
5. बर्फबारी x तपन
6. दर्द x आराम

वचन – बदलो

1. औरत – औरतें
2. डाकिया – डाकिये
3. चौकीदार – चौकीदारों
4. ऑफिस – ऑफिसों

" गुनगुनी धूप " शब्द में गुनगुनी शब्द धूप की विशेषता बता रहा है , निम्न दिये गए शब्दों के लिए एक – एक विशेषण शब्द लिखो

<u>विशेषण</u>	<u>शब्द</u>
1) सीधी	ढलान
2) भारतीय	डाकसेवा
3) पहाड़ी	औरतें
4) छोटे – छोटे	गाँव
5) समझदार	माँ – बाप
6) सुनसान	इलाका

प्रश्न – उत्तर

प्रश्न – 1 कुवरसिंह कहाँ के रहने वाले थे ?

उत्तर – कुवरसिंह हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गाँव के रहने वाले थे !

प्रश्न -2 कुवरसिंह क्या काम करते थे ?

उत्तर – कुवरसिंह चिट्ठियाँ ,रजिस्ट्री व बड़े –बूढ़ों की पेंशन को गाँव – गाँव पहुँचाने का काम करते थे !

प्रश्न- 3 डाकिया बनने के लिए क्या –क्या काम करने पड़ते हैं ?

उत्तर – डाकिया बनने के लिए एक इम्तिहान पास करना पड़ता है !

प्रश्न -4 हिमाचल में बड़े –बूढ़े लोगो को पेंशन कितने दिन बाद दी जाती है ?

उत्तर – हिमाचल में बड़े – बूढ़ों को पेंशन छह महीने बाद दी जाती है !

प्रश्न – 5 डाकियों पर काम का बोझ क्यों बढ़ता जा रहे हैं ?

उत्तर – डाकियों पर काम का बोझ इसीलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो डाकिये रिटायर हो चुके हैं ,उनकी जगह नए डाकिये भर्ती नहीं किए गए हैं ।

दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न – 1 पहाड़ी इलाकों में डाक पहुँचाने में क्या -क्या परेशानियाँ आती है ?

उत्तर – पहाड़ी इलाकों में डाक को पैदल ही घर – घर पहुँचाना पड़ता है ,और पहाड़ी इलाकों में अधिक ठंड होने के कारण बीमारियों का खतरा भी बना रहता है ।

प्रश्न -2 भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाकसेवा है , कैसे ?

उत्तर – भारतीय डाकसेवा सस्ती होने के कारण दुनिया की सबसे बड़ी डाकसेवा है ।

प्रश्न – 3 कुवरसिंह को अपनी नौकरी में मज़ा क्यों आता है ?

उत्तर –कुवरसिंह को अपनी नौकरी में मज़ा इसीलिए आता है क्योंकि उसे (डाकिये) को देखकर लोगो के चेहरे पर मुस्कान आती है ।

प्रश्न -4 कुवरसिंह को "बेस्ट पोस्टमैन "" का पुरस्कार कब और क्यों मिला ?

उत्तर – कुवरसिंह को बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार 2004 में अपनी जान पर खेलकर डाक को बचाने के लिए मिला ।